



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4, 1982/अग्रहायण 13, 1904

No. 57] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 1982/AGRAHAYAN 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1982

आ० अ० 96 (ख) --यह, आंध्र प्रदेश राज्य के 19-नेल्लोर (अ०
जा०) मसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य
श्री श्री० कामरुजा की मृत्यु हो जाने के कारण उस सदन में एक स्थान रिक्त
हो गया है,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)
की धारा 149 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-
क्षेत्र से एतद्वारा घोषणा करता है कि वह ऐसे व्यक्ति को भरने के
लिए 10 जनवरी, 1983 (सोमवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और
तबतक बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार आंध्र प्रदेश
राज्य में अनुसूचित जाति का एक सदस्य निर्वाचित कर दे।

[सं० 100/आ० प्र०-लो० सं०/1/82/(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th December, 1982

O.N. 96(E).—Whereas a vacancy has occurred in the
House of the People by reason of the death of Shri

1045 GI/82

D. Kamakshiah, a member elected to that House from
19 Nellore (SC) parliamentary constituency in the State of
Andhra Pradesh,

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section
149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of
1951), the Election Commission hereby calls upon the said
constituency to elect a person belonging to the Scheduled
Caste in the State of Andhra Pradesh to fill the said vacancy
before 10th January, 1983 (Monday), in accordance with
the provisions of the said Act and of the Rules and Orders
made thereunder.

[No 100/AP-HP/1/82 (1)]

आ० अ० 97 (ख) --लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951
का 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी
अधिसूचना सं० 100/आ० प्र०-लो० सं०/1/82 (1) तारीख 4 दिसंबर,
1982 के अनुसरण में आंध्र प्रदेश राज्य के 19 नेल्लोर (अ० जा०)
मसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में --

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख 11 दिसंबर, 1982
(शनिवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 13 दिसंबर, 1982
(सोमवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर, 1982
(बुधवार)

(1)

- (ग) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा 8 जनवरी, 1983 (बुधवार); और
- (घ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा। 10 जनवरी, 1983 (सोमवार)
- एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/आ० प्र०-सो० सं०/1/82 (2)]

O.N. 97(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 19-Nellore (SC) Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh in pursuance of its notification No. 100/AP-IIP/1/82 (1) dated 4th December, 1982 :—

- the 11th December, 1982 (Saturday), as the last date for making nominations;
- the 13th December, 1982 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
- the 15th December, 1982 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the 5th January, 1983 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken : and
- the 10th January, 1983 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/AP-HP/1/82 (2)]

आ० अ० 98 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/आ० प्र०-सो० सं०/1/82 (1), तारीख 4 दिसंबर, 1982 के अनुसरण में 19-नेल्लोर (अ० जा०) समक्षीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उपनिर्वाचन के लिए 8-00 बजे पूर्वान्ह से 4-00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा।

[सं० 100/आ० प्र०-सो० सं०/1/82 (3)]

आदेश से,
के० गणेशन, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 98(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 19-Nellore (SC) Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/AP-HP/1/82(1) dated 4th December, 1982.

[No. 100/AP-HP/1/82(3)]

By order,
K. GANESAN, Secy.
Election Commission of India